

Part – I
GENERAL STUDIES

1. Which one of the following is not related to N.P.E. – 1986 ?
 - (a) Operation Black Board
 - (b) Early childhood care and education
 - (c) District Institute of Education & Training
 - (d) Opening of Rural Universities

2. As per recommendation of Kothari Commission the duration of first degree course should be
 - (a) 2 years
 - (b) 3 years
 - (c) 4 years
 - (d) 2 to 3 years

3. The proponent of the unit method is
 - (a) John Dewey
 - (b) Herbart Spencer
 - (c) H.C. Morrison
 - (d) B.S. Bloom

4. Teaching machine was constructed by
 - (a) S.L. Pressey
 - (b) W. Allen
 - (c) I.K. Davis
 - (d) B.F. Skinner

5. Which one of the following is not a device of teaching ?
 - (a) Narration
 - (b) Description
 - (c) Explanation
 - (d) Accumulation

6. Which one of the following has not been included in the list of the contents of the Report of the National Knowledge Commission ?
 - (a) School Education
 - (b) Teacher Education
 - (c) Open and Distance Education
 - (d) Vocational Education

7. In the world, agriculture is mostly practised in the
 - (a) River valleys
 - (b) Coastal regions
 - (c) Foothills
 - (d) Plateau region

8. Mayurakshi project is located in
 - (a) West Bengal
 - (b) Andhra Pradesh
 - (c) Odisha
 - (d) Madhya Pradesh

9. The main gold producing state of India is
 - (a) Andhra Pradesh
 - (b) Karnataka
 - (c) Bihar
 - (d) Uttar Pradesh

10. The best soil, for the growth of most plants, is
 - (a) Sandy
 - (b) Clayey
 - (c) Clayey loam
 - (d) Loam

11. 'Earth day' is celebrated on
 - (a) 22 May
 - (b) 5 June
 - (c) 22 April
 - (d) 22 March

भाग – I
सामान्य अध्ययन

1. निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986 से संबंधित नहीं है ?
 - (a) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
 - (b) पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा
 - (c) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
 - (d) ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलना
2. कोठारी कमीशन की संस्तुति के अनुसार प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि होनी चाहिये :
 - (a) 2 वर्ष
 - (b) 3 वर्ष
 - (c) 4 वर्ष
 - (d) 2 से 3 वर्ष
3. इकाई विधि के प्रतिपादक हैं
 - (a) जॉन डीवी
 - (b) हरबर्ट स्पेन्सर
 - (c) एच.सी. मोरिसन
 - (d) बी.एस. ब्लूम
4. शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया था :
 - (a) एस.एल. प्रेसी द्वारा
 - (b) डब्ल्यू. एलन द्वारा
 - (c) आई.के. डेविस द्वारा
 - (d) बी.एफ. स्किनर द्वारा
5. निम्न में से कौन एक शिक्षण की युक्ति नहीं है ?
 - (a) विवरण
 - (b) वर्णन
 - (c) व्याख्या
 - (d) संग्रहण
6. निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट की विषय-वस्तु की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ?
 - (a) विद्यालय-शिक्षा
 - (b) अध्यापक-शिक्षा
 - (c) मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा
 - (d) व्यावसायिक शिक्षा
7. विश्व में, कृषि कार्य अधिकांशतः होता है :
 - (a) नदी घाटियों में
 - (b) सागरीय तटों में
 - (c) गिरिपादों में
 - (d) पठारी भागों में
8. मयूराक्षी – परियोजना अवस्थित है :
 - (a) प. बंगाल में
 - (b) आन्ध्र प्रदेश में
 - (c) ओडिशा में
 - (d) मध्य प्रदेश में
9. भारत में प्रमुख सोना उत्पादक राज्य है
 - (a) आन्ध्र प्रदेश
 - (b) कर्नाटक
 - (c) बिहार
 - (d) उत्तर प्रदेश
10. अधिकांश पौधों की वृद्धि के लिये, सर्वोत्तम मृदा है
 - (a) बलुई
 - (b) चीका
 - (c) चीका दोमट
 - (d) दोमट
11. 'पृथ्वी दिवस' मनाया जाता है
 - (a) 22 मई को
 - (b) 5 जून को
 - (c) 22 अप्रैल को
 - (d) 22 मार्च को

12. Montreal protocol is associated with
 (a) protection of wildlife (b) protection of Himalayas
 (c) development of coastal areas (d) protection of stratospheric ozone layer
13. Small pox and Rabies are
 (a) Viral diseases (b) Bacterial diseases
 (c) Fungal diseases (d) Deficiency diseases
14. Presence of which of the following is the cause of 'Minamata' disease ?
 (a) Sodium chloride (b) Mercuric chloride
 (c) Silver nitrate (d) Ethyle isocyanate
15. Which of the following gas was responsible for the Bhopal Gas tragedy ?
 (a) Carbon monoxide (b) Ethyl isocyanate
 (c) Methyl isocyanate (d) None of these
16. Cervical cancer is caused by
 (a) Pep Pills (b) Fatty diet
 (c) Epstein Barr Virus (d) Human Papilloma Virus
17. The first genetically engineered human insulin was launched in the year
 (a) 1970 (b) 1983 (c) 1990 (d) 1993
18. The antibiotic penicillin is produced by
 (a) Bacteria (b) Fungus (c) Algae (d) Lichens
19. In which year was the National Institute for Disaster Management officially established ?
 (a) 1992 (b) 2006 (c) 2010 (d) 2013
20. The first Transgenic plant was that of
 (a) Pea (b) Flax (c) Tobacco (d) Cotton
21. Which of the following is not a programming language of a computer ?
 (a) Fortran (b) Java (c) COBOL (d) Windows
22. Which mobile application was launched by Delhi police in January 2015 ?
 (a) Himmat (b) Madad
 (c) Kismat (d) Suraksha
23. Which of the following is not a mammal ?
 (a) Duck billed platypus (b) Bat
 (c) Whale (d) Great Indian Bustard
24. At what temperature is the density of water maximum ?
 (a) 100 °C (b) 4 °C
 (c) 0 °C (d) (-) 4 °C

12. मोन्ट्रीयल प्रोटोकॉल, निम्न से संबंधित है :
- (a) वन्य जीव के संरक्षण से । (b) हिमालय के संरक्षण से ।
(c) तटीय क्षेत्रों के विकास से । (d) स्ट्रेटोस्फीरिक ओजोन परत के संरक्षण से ।
13. चेचक एवं रैबीज़ हैं
- (a) विषाणु जनित रोग (b) जीवाणु जनित रोग
(c) फफूँद जनित रोग (d) न्यूनता जनित रोग
14. भोजन में निम्न में से किसकी उपस्थिति "मिनामाता" रोग का कारण है ?
- (a) सोडियम क्लोराइड (b) मरक्यूरिक क्लोराइड
(c) सिल्वर नाइट्रेट (d) एथिल-आइसोसाइनेट
15. निम्न में से कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिये जिम्मेदार थी ?
- (a) कार्बन मोनोक्साइड (b) एथिल आइसोसाइनेट
(c) मेथिल आइसो साइनेट (d) इनमें से कोई नहीं
16. गर्भाशय के कैंसर का कारण है
- (a) पैप गोलियाँ (b) वसा युक्त भोजन
(c) एपस्टीन बर् वायरस (d) ह्यूमेन पैपिलोमा वायरस
17. आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव इंसुलिन प्रारम्भ किया गया था वर्ष :
- (a) 1970 में (b) 1983 में (c) 1990 में (d) 1993 में
18. एंटीबायोटिक पेनिसिलिन उत्पादित किया जाता है
- (a) बैक्टीरिया द्वारा (b) फफूँद द्वारा (c) एल्गी द्वारा (d) लाइकेन्स द्वारा
19. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की स्थापना, आधिकारिक रूप से, किस वर्ष में हुई थी ?
- (a) 1992 (b) 2006 (c) 2010 (d) 2013
20. प्रथम ट्रान्सजेनिक पौधा था
- (a) मटर का (b) पटसन का (c) तंबाकू का (d) कपास का
21. निम्न में से कौन सी कम्प्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है ?
- (a) फोरट्रान (b) जावा (c) कोबोल (d) विंडोज
22. जनवरी 2015 में, दिल्ली पुलिस द्वारा किस मोबाइल ऐप्लिकेशन को आरम्भ किया गया ?
- (a) हिम्मत (b) मदद
(c) किस्मत (d) सुरक्षा
23. निम्न में से कौन स्तनपायी नहीं है ?
- (a) डक बिल्ड प्लेटिपस (b) चमगादड़
(c) ह्वेल (d) गोंडावन (महान सारंग)
24. किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है ?
- (a) 100 °C (b) 4 °C
(c) 0 °C (d) (-) 4 °C

25. Central Drug Research Institute (CDRI) is situated at
(a) Bengaluru (b) Mumbai (c) Lucknow (d) New Delhi
26. The ginger is a
(a) Bulb (b) Rhizome (c) Tuber (d) Modified root
27. Which of the following Vitamins is essential for blood clotting ?
(a) Vitamin – K (b) Vitamin – A
(c) Vitamin – D (d) Vitamin – C
28. In an ecosystem green plants are
(a) Consumers (b) Parasites
(c) Decomposer (d) Producers
29. Which of the following colours of light travels slowest in glass ?
(a) Red (b) Green
(c) Violet (d) All travel with the same speed.
30. Which one of the following Union Territories has a High Court of its own ?
(a) Chandigarh (b) Delhi
(c) Puducherry (d) Lakshadweep
31. Stephen Hawking is known for his extensive work in the field of
(a) Computer Science (b) Organic Chemistry
(c) Plant Pathology (d) Theoretical Physics
32. Under United Nations Development Programme, which of the following Human Development Reports (HDR) introduced, for the first time, the new measure – Multidimensional Poverty Index (MPI) ?
(a) HDR – 2009 (b) HDR – 2010
(c) HDR – 2011 (d) HDR – 2012
33. Under developed economies are also known as
(a) Primary Sector Economies (b) Industrial Economies
(c) Advanced Economies (d) None of the above
34. Which among the following State is not a natural source of Crude Oil in India ?
(a) Gujarat (b) Assam
(c) Maharashtra (d) Madhya Pradesh
35. The writer of the book “Planned Economy for India” is
(a) Jawahar Lal Nehru (b) Amartya Sen
(c) M. Visvesvarayya (d) M.N. Roy
36. “Panchayat Raj” in rural development system is related to
(a) Central Planning (b) Decentralized planning
(c) Capitalistic Planning (d) Rolling planning

25. केन्द्रीय औषधि शोध संस्थान (सी.डी.आर.आई.) स्थित है
 (a) बैंगलुरु में (b) मुम्बई में (c) लखनऊ में (d) नई दिल्ली में
26. अदरक है एक :
 (a) बल्ब (b) राइजोम (c) ट्यूबर (d) परिवर्तित जड़
27. निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है ?
 (a) विटामिन – के (b) विटामिन – ए
 (c) विटामिन – डी (d) विटामिन – सी
28. पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप हैं
 (a) उपभोक्ता (b) परजीवी
 (c) अपघटक (d) उत्पादक
29. निम्न में से कौन से रंग का प्रकाश काँच के अंदर सबसे धीरे चलता है ?
 (a) लाल (b) हरा
 (c) बैंगनी (d) सभी समान गति से चलते हैं ।
30. निम्न में से किस एक केन्द्र शासित प्रदेश का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है ?
 (a) चंडीगढ़ (b) दिल्ली
 (c) पुडुचेरी (पान्डीचेरी) (d) लक्षद्वीप
31. स्टीफन हाकिंग किस क्षेत्र में अपने व्यापक कार्य के लिये जाने जाते हैं ?
 (a) कम्प्यूटर विज्ञान (b) कार्बनिक रसायन
 (c) पादप रोग विज्ञान (d) सैद्धान्तिक भौतिकी
32. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किस मानव विकास रिपोर्ट में पहली बार नया मापक - बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (एम.पी.आई.) जारी किया गया ?
 (a) मानव विकास रिपोर्ट – 2009 (b) मानव विकास रिपोर्ट – 2010
 (c) मानव विकास रिपोर्ट – 2011 (d) मानव विकास रिपोर्ट – 2012
33. अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है
 (a) प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्थाएँ (b) औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएँ
 (c) विकसित अर्थव्यवस्थाएँ (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
34. निम्न में से कौन सा राज्य भारत में कच्चे तेल का प्राकृतिक स्रोत नहीं है ?
 (a) गुजरात (b) असम
 (c) महाराष्ट्र (d) मध्य प्रदेश
35. “प्लान्ड इकोनोमी फॉर इंडिया” नामक पुस्तक के लेखक हैं
 (a) जवाहर लाल नेहरू (b) अमर्त्य सेन
 (c) एम. विश्वेश्वरैया (d) एम.एन. रॉय
36. ग्रामीण विकास प्रणाली के अंतर्गत “पंचायती राज” – संबंधित है
 (a) केन्द्रीयकृत नियोजन से (b) विकेन्द्रीकृत नियोजन से
 (c) पूँजीवादी नियोजन से (d) अनवरत नियोजन से

37. The concept of 'Natural Growth Rate' was given by
 (a) Harrod (b) Lamarck
 (c) Nurske (d) Meade
38. In which of the following years, was NREGA launched ?
 (a) 2005 (b) 2000 (c) 1996 (d) 1992
39. In which five year plan the 'Capacity Building' through urban local bodies was conceived ?
 (a) 8th Plan (b) 9th Plan (c) 11th Plan (d) 12th Plan
40. In which country was the 7th BRICS Summit of 2015 held ?
 (a) Brazil (b) Russia
 (c) Nepal (d) China
41. Where is the Dev Sanskriti Vishva Vidyalaya located ?
 (a) Varanasi (b) Prayag
 (c) Haridwar (d) Ujjain
42. After 1885, when did W.C. Bannerjee became the Congress President for the second time ?
 (a) 1889 (b) 1892 (c) 1895 (d) 1897
43. In connection of whose case did Mahatma Gandhi go to South Africa ?
 (a) Dada Abdullah (Abdullah Sheth) (b) Abdulla Hashim
 (c) Dada Gaffar (d) Nasir and Company
44. Who amongst the following had called Gandhiji "One man boundary force" ?
 (a) Louis Fischer (b) Valentine Chirole
 (c) Lord Mountbatten (d) Jawahar Lal Nehru
45. Most of Smritis have been written in verse. Which of the following has been written in prose ?
 (a) Narad Smriti (b) Brihaspati Smriti
 (c) Yajnavalakya Smriti (d) Vishnu Smriti
46. Which Mandal of the Rigveda is dedicated to 'Soma' ?
 (a) Eighth (b) Ninth
 (c) Tenth (d) Sixth
47. To whom Gautam Buddha gave his last sermon at Kushinagar ?
 (a) Subhadd (b) Anand
 (c) Sariputra (d) Upali
48. In which year did Swami Dayanand publish his book "Satyarth Prakash" ?
 (a) 1890 (b) 1880 (c) 1870 (d) 1875

37. “प्राकृतिक विकास दर” – की अवधारण दी गई थी
 (a) हैरोड द्वारा (b) लैमार्क द्वारा
 (c) नर्सके द्वारा (d) मीड द्वारा
38. निम्न में से किस वर्ष में नरेगा (एन आर ई जी ए) प्रारम्भ की गई थी ?
 (a) 2005 (b) 2000 (c) 1996 (d) 1992
39. किस पंचवर्षीय योजना में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ‘कैपेसिटी बिल्डिंग’ का विचार दिया गया ?
 (a) आठवीं योजना (b) नवीं योजना (c) ग्यारहवीं योजना (d) बारहवीं योजना
40. वर्ष 2015 में, सातवाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ ?
 (a) ब्राज़ील (b) रूस
 (c) नेपाल (d) चीन
41. देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ?
 (a) वाराणसी (b) प्रयाग
 (c) हरिद्वार (d) उज्जैन
42. 1885 के बाद, डब्ल्यू.सी. बनर्जी दुबारा काँग्रेस के अध्यक्ष कब बने ?
 (a) 1889 (b) 1892 (c) 1895 (d) 1897
43. महात्मा गाँधी किसके मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गये थे ?
 (a) दादा अब्दुल्ला (अबदुल्ला शेठ) (b) अब्दुल्ला हाशिम
 (c) दादा गफ्फार (d) नासिर एण्ड कम्पनी
44. निम्न में से किसने गांधीजी को “वन मैन बाउन्ड्री फोर्स” कहा था ?
 (a) लुईस फिशर (b) वेलेन्टाइन शिरोल
 (c) लॉर्ड माउन्टबेटन (d) जवाहर लाल नेहरू
45. अधिकतर स्मृतियाँ पद्य में लिखी गई हैं । निम्न में से कौन सी गद्य में लिखी गई है ?
 (a) नारद स्मृति (b) बृहस्पति स्मृति
 (c) याज्ञवल्क्य स्मृति (d) विष्णु स्मृति
46. ऋग्वेद का कौन सा मण्डल ‘सोम’ को समर्पित है ?
 (a) आठवाँ (b) नवाँ
 (c) दसवाँ (d) छठा
47. गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था ?
 (a) सुभद्र (b) आनन्द
 (c) सारिपुत्र (d) उपालि
48. स्वामी दयानन्द ने अपनी पुस्तक “सत्यार्थ प्रकाश” किस वर्ष में प्रकाशित की ?
 (a) 1890 (b) 1880 (c) 1870 (d) 1875

49. Who amongst the following is the National Security Advisor to the Prime Minister of India ?
 (a) J.N. Dixit (b) Ajit Kumar Doval
 (c) Shiva Shankar Menon (d) M.K. Narayanan
50. Name the 'Humanoid Machine' developed by Japanese Company Toshiba.
 (a) Yoshiko (b) Norika
 (c) Aiko Chihira (d) Chiyoko
51. Name the Indian Government's operation to help the earthquake victims in Nepal.
 (a) Sahyog (b) Operation Maitri
 (c) Operation Sahyog (d) Operation Parivartan
52. Who has been crowned as 'Femina Miss India – 2015' ?
 (a) Aditi Arya (b) Koyal Rana
 (c) Ruchi Singh (d) Vartika Singh
53. Which country returned back to India, the 12th century sculpture, "Parrot Lady" ?
 (a) U.S.A. (b) France (c) Japan (d) Canada
54. Who is the present General Secretary of Communist Party of India (Marxist) ?
 (a) Prakash Karat (b) Sitaram Yechury
 (c) S. Sudhakar Reddy (d) A.B. Bardhan
55. Match List – I with List – II and select correct answer using the codes given below :
- | List – I : Country | | List – II : Foreign Minister | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| A. | India | 1. | John Kerry |
| B. | United States of America | 2. | Sushma Swaraj |
| C. | Sri Lanka | 3. | Abdul Hasan Mahmud Ali |
| D. | Bangladesh | 4. | Mangla Samarweera |
- Code :**
- | | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| (a) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (b) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (c) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| (d) | 4 | 3 | 2 | 1 |
56. Indian Army's "Operation Meghdoot" was related to
 (a) Sri Lanka (b) Maldives
 (c) Tibet (d) Siachin Glacier
57. With which sport is the word 'Beamer' associated ?
 (a) Football (b) Cricket (c) Volleyball (d) Hockey
58. On which hill the Rastrapati Bhavan is situated in Delhi ?
 (a) Vindhya Hill (b) Southern Hill
 (c) Raisena Hill (d) None of these

49. निम्न में से कौन भारत के प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ?
 (a) जे.एन. दीक्षित (b) अजीत कुमार डोवाल
 (c) शिव शंकर मेनन (d) एम.के. नारायणन
50. जापान की कम्पनी तोशिबा द्वारा विकसित 'मानवाभ मशीन' का नाम बताइए ।
 (a) योशिको (b) नोरिका
 (c) अइको चिहिरा (d) चियोको
51. नेपाल में हुए भूकम्प के पीड़ितों की सहायतार्थ भारत सरकार द्वारा चलाये गये अभियान का नाम बताइए ।
 (a) सहयोग (b) ऑपरेशन मैत्री
 (c) ऑपरेशन सहयोग (d) ऑपरेशन परिवर्तन
52. 'फेमिना मिस इण्डिया – 2015' का खिताब किसे दिया गया ?
 (a) अदिति आर्या (b) कोयल राणा
 (c) रुचि सिंह (d) वर्तिका सिंह
53. किस देश ने भारत को 12वीं शताब्दी की स्थापत्य-कला-मूर्ति "पैरट लेडी" वापस की ?
 (a) यू.एस.ए. (b) फ्रांस
 (c) जापान (d) कनाडा
54. वर्तमान में भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) का महासचिव कौन है ?
 (a) प्रकाश करात (b) सीताराम येचुरी
 (c) एस. सुधाकर रेड्डी (d) ए.बी. बर्धन
55. सूची – I और सूची – II को सुमेलित कीजिये और नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिये :
सूची – I : देश **सूची – II : विदेश मंत्री**
 A. भारत 1. जॉन केरी
 B. संयुक्त राज्य अमेरिका 2. सुषमा स्वराज
 C. श्रीलंका 3. अब्दुल हसन महमूद अली
 D. बांग्लादेश 4. मंगला समरवीरा
- कूट :**
- | | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| (a) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (b) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (c) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| (d) | 4 | 3 | 2 | 1 |
56. भारतीय सेना का अभियान "ऑपरेशन मेघदूत" संबंधित था
 (a) श्रीलंका से (b) मालदीव से
 (c) तिब्बत से (d) सियाचिन ग्लेशियर से
57. 'बीमर' शब्द किस खेल से संबंधित है ?
 (a) फुटबॉल (b) क्रिकेट
 (c) वॉलीबॉल (d) हॉकी
58. देहली (दिल्ली) में किस पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति भवन स्थित है ?
 (a) विन्ध्य पहाड़ी (b) दक्षिणी पहाड़ी
 (c) रायसीना पहाड़ी (d) इनमें से कोई नहीं

59. Which currency and country are not matched among the following ?
- (a) U.S.A. – Dollar
 (b) Australia – Pound
 (c) South Korea – Won
 (d) Saudi Arabia – Riyal
60. What is the full expanded form of BCCI ?
- (a) Board of Cricket Control in India (b) Bombay Cricket Control of India
 (c) Board of Control for Cricket in India (d) British Control for Cricket International
61. Who amongst the followings was the Constitutional Advisor to the Constituent Assembly ?
- (a) Sir B.N. Rau (b) B.R. Ambedkar
 (c) T.T. Krishnamachari (d) K.M. Munshi
62. Which one of the following rights is not available to foreigners living in India ?
- (a) Right of Education (b) Freedom of Religion
 (c) Freedom of Assembly (d) Equality before Law
63. The Governor has the power to impose Governor's Rule in which of the following State ?
- (a) Nagaland (b) Manipur
 (c) Tripura (d) Jammu & Kashmir
64. The Tenth Schedule of the Indian Constitution relates to
- (a) Antidefection Law (b) Panchayati Raj
 (c) Land Reforms (d) Languages
65. In the Constitution of India 'Education' is included in
- (a) The Union List (b) The State List
 (c) The Concurrent List (d) The residuary power
66. The Vidhan Sabha of which State was addressed for the first time in May 2015 by the President of India ?
- (a) Haryana (b) Rajasthan
 (c) Tamil Nadu (d) Uttarakhand
67. Who amongst the following is the winner of the Oscar Award ?
- (a) A.R. Rehman (b) Anu Malik
 (c) Sonu Nigam (d) Kalyanji-Anandji
68. Which one of the following was the first Indian sound film ?
- (a) Alarm Ara (b) Raja Harishchandra
 (c) Kishan Kanhaiya (d) Mughal-E-Azam
69. When was the Central Information Commission established ?
- (a) 2002 (b) 2005 (c) 2008 (d) 2000
70. What was the main cause of Greece problem emerged during June 2015 ?
- (a) Terrorism (b) Political (c) Educational (d) Economic

59. निम्न में से किस देश की मुद्रा और देश सुमेलित नहीं है ?
 (a) यू.एस.ए. – डॉलर
 (b) ऑस्ट्रेलिया – पाउन्ड
 (c) दक्षिण कोरिया – वॉन
 (d) सऊदी अरब – रियाल
60. बी.सी.सी.आई. का पूर्ण विस्तारित स्वरूप क्या है ?
 (a) बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया
 (b) बॉम्बे क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया
 (c) बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया
 (d) ब्रिटिश कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंटरनेशनल
61. निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था ?
 (a) सर बी.एन. राव
 (b) बी.आर. अंबेडकर
 (c) टी.टी. कृष्णामाचारी
 (d) के.एम. मुन्शी
62. निम्न में से कौन सा अधिकार भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं मिलता ?
 (a) शिक्षा का अधिकार
 (b) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
 (c) इकट्ठा होने की स्वतंत्रता
 (d) विधि के समक्ष समता
63. निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने की शक्ति (अधिकार) है ?
 (a) नागालैंड
 (b) मणिपुर
 (c) त्रिपुरा
 (d) जम्मू और कश्मीर
64. भारतीय संविधान की दसवीं सूची का संबंध है
 (a) दलबदल विरोधी कानून से
 (b) पंचायती राज से
 (c) भूमि सुधार से
 (d) भाषाओं से
65. भारतीय संविधान के अंतर्गत 'शिक्षा' को सम्मिलित किया गया है
 (a) संघीय सूची में
 (b) राज्य सूची में
 (c) समवर्ती सूची में
 (d) अवशिष्ट शक्ति (सूची) में
66. मई 2015 में भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य की विधान सभा को प्रथम बार संबोधित किया था ?
 (a) हरियाणा
 (b) राजस्थान
 (c) तमिलनाडु
 (d) उत्तराखण्ड
67. निम्नलिखित में से कौन 'ऑस्कर पुरस्कार' के विजेता है ?
 (a) ए.आर. रहमान
 (b) अनु मलिक
 (c) सोनू निगम
 (d) कल्याणजी-आनन्दजी
68. निम्न में से कौन प्रथम भारतीय ध्वनि चलचित्र था ?
 (a) आलम आरा
 (b) राजा हरिश्चंद्र
 (c) किशन कन्हैया
 (d) मुगले-आज़म
69. केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी ?
 (a) 2002 में
 (b) 2005 में
 (c) 2008 में
 (d) 2000 में
70. जून 2015 में उभरी ग्रीस की समस्या का मुख्य कारण क्या था ?
 (a) आतंकवाद
 (b) राजनीतिक
 (c) शैक्षिक
 (d) आर्थिक

Part – II
GENERAL KNOWLEDGE RELATED TO STATE

71. Who was the writer of “Aryon Ka Aadi-Niwas Madhya Himalaya” ?
(a) Mukundi Lal (b) Shiv Prasad Dabral
(c) Shekhar Pathak (d) Bhajan Singh “Singh”
72. Who is known as “Kurmanchal Kesari” ?
(a) Badri Dutt Pandey (b) G.B. Pant
(c) Mohan Singh Mehta (d) Victor Mohan Joshi
73. In which of the following fair, the stone pelting (stone warfare) is prevalent ?
(a) Kandali festival (b) Uttarayani Mela
(c) Devidhura Mela (d) Nandadevi Mela
74. Who was the first British Commissioner of Kumaon ?
(a) Trail (b) E. Gardner
(c) Lashington (d) Batton
75. Who is the first women of Uttarakhand awarded ‘Dronacharya Award’ ?
(a) Hansa Manral (b) Harshwanti Bisht
(c) Bachendri Pal (d) Parigya
76. Which of the following National Parks is shared by Pauri Garhwal and Nainital district ?
(a) Valley of flowers (b) Rajaji National Park
(c) Corbett National Park (d) Govind National Park
77. Which of the following is not correctly matched ?
(a) Merg – J & K (Jammu & Kashmir)
(b) Kanda – Himachal Pradesh
(c) Buggyal – Uttarakhand
(d) Erg – Doon Valley
78. ‘Chotta Kailash’ is situated in
(a) Chamoli District (b) Pithoragarh District
(c) Bageshwar District (d) Uttarkashi District
79. Which of the following districts of Uttarakhand is not connected by rail-transport ?
(a) Pauri (b) Nainital
(c) Dehradun (d) Tehri-Garhwal
80. Who is famous for the success of ‘Nanda Devi Abhiyan’ in 1981 ?
(a) Dr. Harshwanti Bisht (b) Bachendri Pal
(c) Santosh Yadav (d) None of the above

भाग – II

राज्य सम्बन्धी सामान्य ज्ञान

71. “आर्यों का आदिनिवास मध्य हिमालय” के लेखक कौन थे ?
(a) मुकुन्दीलाल (b) शिवप्रसाद डबराल
(c) शेखर पाठक (d) भजनसिंह “सिंह”
72. “कूर्माचल केसरी” के नाम से कौन जाना जाता है ?
(a) बद्रीदत्त पाण्डे (b) जी.बी. पंत
(c) मोहन सिंह मेहता (d) विक्टर मोहन जोशी
73. निम्नलिखित में से किस मेले में पाषाण युद्ध की परम्परा प्रचलित है ?
(a) कण्डाली महोत्सव (b) उत्तरायणी मेला
(c) देवीधूरा मेला (d) नंदादेवी मेला
74. कुमाऊँ का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था ?
(a) ट्रेल (b) इ. गार्डनर
(c) लार्सिंगटन (d) बैटन
75. ‘द्रोणाचार्य सम्मान’ से सम्मानित उत्तराखण्ड की प्रथम महिला कौन है ?
(a) हंसा मनराल (b) हर्षवन्ती बिष्ट
(c) बछेन्द्री पाल (d) परिगया
76. निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन पौड़ी-गढ़वाल एवं नैनीताल जनपदों में साझा है ?
(a) फूलों की घाटी (b) राजाजी राष्ट्रीय उद्यान
(c) कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान (d) गोविन्द राष्ट्रीय उद्यान
77. निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ?
(a) मर्ग – जम्मू एण्ड कश्मीर
(b) कण्डा – हिमाचल प्रदेश
(c) बुग्याल – उत्तराखण्ड
(d) एर्ग – दून घाटी
78. ‘छोटा कैलाश’ स्थित है :
(a) चमोली जनपद में (b) पिथौरागढ़ जनपद में
(c) बागेश्वर जनपद में (d) उत्तरकाशी जनपद में
79. निम्न में से उत्तराखण्ड का कौन सा जनपद रेल-यातायात से नहीं जुड़ा है ?
(a) पौड़ी (b) नैनीताल
(c) देहरादून (d) टिहरी-गढ़वाल
80. 1981 के ‘नंदादेवी अभियान’ की सफलता में कौन प्रसिद्ध हुआ ?
(a) डॉ. हर्षवन्ती बिष्ट (b) बछेन्द्री पाल
(c) संतोष यादव (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

81. Which one of the following pairs is not correctly matched ?
- (a) Gaindi fair – Distt. Almora
 (b) Chaiti fair – Distt. Udham Singh Nagar
 (c) Jauljibi fair – Distt. Pithoragarh
 (d) Maun fair – Tehri Garhwal
82. Raini Village of Chamoli district is well known for which forest movement ?
- (a) Rewain movement (b) Chipko movement
 (c) Dungji-Paitoli movement (d) Maiti movement
83. The author of the book 'My India' is
- (a) Dr. Shekhar Pathak (b) Rushkin Bond
 (c) Barrister Mukundi Lal (d) Jim Corbett
84. The oldest hydro-electric project of the Uttarakhand State is
- (a) Lohia head project (b) Pathri project
 (c) Cheela project (d) Glogi project
85. 'Bhakar' is used in rural Uttarakhand for
- (a) Water storage (b) Fruit collection
 (c) Foodgrain storage (d) Milk storage
86. Which one of the following is not a State University in Uttarakhand ?
- (a) Gurukul Kangri University (b) Kumaun University
 (c) HNB Medical University (d) Shridev Suman University
87. Among the four Dhams of Uttarakhand, which one is situated at the highest altitude ?
- (a) Badrinath (b) Kedarnath
 (c) Gangotri (d) Yamunotri
88. The capital of princely State of Tehri was formed in Tehri in
- (a) 12th Feb. 1816 A.D. (b) 28th Dec. 1815 A.D.
 (c) 10th Oct. 1818 A.D. (d) 28th Dec. 1817 A.D.
89. 'Tand Tax' was collected from
- (a) Weavers (b) Blacksmiths
 (c) Goldsmiths (d) Masons
90. Who participated in 'Dandi March' of Gandhiji from Uttarakhand ?
- (a) Jyotiram Kandpal (b) Mukundi Lal
 (c) Victor Mohan Joshi (d) Khushi Ram

81. निम्न में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है ?
- (a) गेंदी मेला – जनपद अल्मोड़ा
 (b) चैती मेला – जनपद उधमसिंहनगर
 (c) जौलजीवी मेला – जनपद पिथौरागढ़
 (d) मौण मेला – टिहरी-गढ़वाल
82. चमोली जनपद का रैणी गाँव किस वन आन्दोलन के लिए प्रसिद्ध है ?
- (a) रवाई आन्दोलन (b) चिपको आन्दोलन
 (c) डूंगी-पैतोली आन्दोलन (d) मैती आन्दोलन
83. 'माई इन्डिया' पुस्तक के लेखक हैं :
- (a) डॉ. शंखर पाठक (b) रस्किन बॉण्ड
 (c) बैरिस्टर मुकुन्दीलाल (d) जिम कार्बेट
84. उत्तराखण्ड राज्य की सबसे पुरानी जलविद्युत परियोजना है
- (a) लोहिया हैड परियोजना (b) पथरी परियोजना
 (c) चीला परियोजना (d) ग्लोगी परियोजना
85. 'भकार' का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखण्ड में किया जाता है :
- (a) जल संग्रहण के लिए (b) फलों के एकत्रीकरण के लिए
 (c) खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए (d) दुग्ध संग्रहण के लिए
86. उत्तराखण्ड में निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय नहीं है ?
- (a) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय (b) कुमाऊँ विश्वविद्यालय
 (c) एच.एन.बी. मेडिकल विश्वविद्यालय (d) श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय
87. उत्तराखण्ड के चार धामों में सर्वाधिक ऊँचाई पर कौन सा धाम स्थित है ?
- (a) बद्रीनाथ (b) केदारनाथ
 (c) गंगोत्री (d) यमुनोत्री
88. टिहरी रियासत की राजधानी 'टिहरी' की स्थापना हुयी थी :
- (a) 12 फरवरी, 1816 ई. (b) 28 दिसम्बर, 1815 ई.
 (c) 10 अक्टूबर, 1818 ई. (d) 28 दिसम्बर, 1817 ई.
89. 'टांड कर' वसूल किया जाता था :
- (a) बुनकरों से (b) लोहारों से
 (c) स्वर्णकारों से (d) राजगीरों से
90. गांधीजी के 'दांडी मार्च' में उत्तराखण्ड से किसने प्रतिभाग किया था ?
- (a) ज्योतिराम काण्डपाल (b) मुकुन्दी लाल
 (c) विक्टर मोहन जोशी (d) खुशीराम

Part – III
GENERAL INTELLIGENCE TEST

91. There are some benches in a classroom. If 4 students sit on each bench, then 3 benches are left unoccupied. However if 3 students sit on each bench, 3 students are left standing. How many students are there in the class ?

- (a) 64 (b) 56
(c) 48 (d) 36

92. Find the missing alphabet (?) in the following :

F	I	O
A	J	K
E	M	?

- (a) P (b) R
(c) S (d) V

93. Which letter is fifth to the right of the eighteenth letter from your right in the English alphabets ?

- (a) M (b) N
(c) O (d) P

94. If the first three letters of the word COMPREHENSION are reversed, after that the last three letters are added and then the remaining letters are reversed and added to the series of letters, which letter will be exactly in the middle ?

- (a) H (b) N (c) R (d) S

95. Find out the odd figure in the following :

O	P	E	I
1	2	3	4

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

96. If $25 \div 5 = 15$, $30 \div 6 = 20$, then $70 \div 7 = ?$

- (a) 40 (b) 45
(c) 55 (d) None of these

97. Which number will complete the following series ?

6, 10, 18, 30, 46,

- (a) 51 (b) 61 (c) 66 (d) 76

98. In the following number series, a wrong number is given. Find that wrong number.

3, 7, 23, 95, 480, 2879

- (a) 480 (b) 95 (c) 23 (d) 7

99. Which of the following is equal to $34 \times 4\frac{1}{2}$?

- (a) $(34 \times 40) + (34 \times \frac{1}{2})$ (b) $(30 \times 4\frac{1}{2}) + (4 \times 4)$
(c) $(34 \times \frac{1}{2}) + (30 \times 4) + (4 \times 4)$ (d) $(30 \times 4) + (4 \times 4\frac{1}{2})$

भाग – III
सामान्य बुद्धि परीक्षण

91. एक कक्षा में कुछ बेंच हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठते हैं, तो 3 बेंच खाली रह जाती हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं, तो 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ?

- (a) 64 (b) 56
(c) 48 (d) 36

92. निम्नलिखित में लुप्त अक्षर (?) ज्ञात कीजिए।

F	I	O
A	J	K
E	M	?

- (a) P (b) R
(c) S (d) V

93. अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाहिने ओर से 18वें (अठारहवें) अक्षर के दाहिने ओर का पाँचवाँ अक्षर कौन सा है ?

- (a) M (b) N
(c) O (d) P

94. यदि शब्द COMPREHENSION में पहले तीन अक्षर पलट कर रख दिए जाएँ, फिर अन्तिम तीन अक्षर जोड़ दिए जाएँ और बचे हुए अक्षरों को पलट कर इस अक्षर-शृंखला में जोड़ दिया जाए, तो कौन सा अक्षर बिलकुल बीच में आएगा ?

- (a) H (b) N (c) R (d) S

95. निम्नलिखित आकृतियों में से भिन्न आकृति पहचानिए :

O	P	E	I
1	2	3	4

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

96. यदि $25 \div 5 = 15$, $30 \div 6 = 20$, तब $70 \div 7 = ?$

- (a) 40 (b) 45
(c) 55 (d) इनमें से कोई नहीं

97. कौन सी संख्या निम्नांकित श्रेणी को पूर्ण करेगी ?

6, 10, 18, 30, 46,

- (a) 51 (b) 61
(c) 66 (d) 76

98. निम्नलिखित संख्या-श्रेणी में, एक ग़लत संख्या दी गई है। उस ग़लत संख्या को ज्ञात कीजिए।

3, 7, 23, 95, 480, 2879

- (a) 480 (b) 95 (c) 23 (d) 7

99. निम्नलिखित में कौन $34 \times 4\frac{1}{2}$ के बराबर है ?

- (a) $(34 \times 40) + (34 \times \frac{1}{2})$ (b) $(30 \times 4\frac{1}{2}) + (4 \times 4)$
(c) $(34 \times \frac{1}{2}) + (30 \times 4) + (4 \times 4)$ (d) $(30 \times 4) + (4 \times 4\frac{1}{2})$

100. If MACHINE is coded as 19 – 7 – 9 – 14 – 15 – 20 – 11, how DANGER will be coded ?

- (a) 13 – 7 – 20 – 10 – 11 – 25 (b) 10 – 7 – 20 – 13 – 11 – 24
 (c) 11 – 7 – 20 – 16 – 11 – 24 (d) 13 – 7 – 20 – 9 – 11 – 25

101. There is an imaginary system in which the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are substituted by a, b, c, d, e, f, g, h, i and j respectively, then the value of


$bee + fg - (ca \times \frac{h}{be})$ is equal to

- (a) bja (b) bic
 (c) bhc (d) bib

102. Prabhat is taller than Mahesh. Gopal is taller than Mahesh. Bhuwan is shorter than Mahesh. Who amongst them is the tallest ?

- (a) Bhuwan (b) Gopal
 (c) Prabhat (d) Gopal or Prabhat

103. In the following question, which number should appear in place of question mark (?) ?



- (a) 4268 (b) 2856
 (c) 6464 (d) 5832

104. A man walks 40 metres towards South, then turning to his right, he walks 30 metres. Then turning to his right, he walks 40 metres. Then he turns to his left and walks 40 metres. How far is he from his initial position ?

- (a) 30 metres (b) 50 metres
 (c) 60 metres (d) 70 metres

105. There are four friends Anil, Sushil, Raju and Harish. One of them is a cricketer and studies Chemistry and Biology. Anil and Sushil play football. Anil studies Commerce. Both the football players study mathematics. Harish is a boxer. One football player also studies Physics. The boxer studies Mathematics and Accountancy. Every person studies two subjects and plays one game.

Name the person who is not a boxer but studies Chemistry and Biology both.

- (a) Anil (b) Sushil
 (c) Raju (d) Harish

106. The average weight of A, B and C is 45 kg, that of A and B is 40 kg and of B and C is 43 kg. Find the weight of B.

- (a) 31 kg (b) 26 kg
 (c) 20 kg (d) 17 kg

100. यदि MACHINE के लिए कूट 19 – 7 – 9 – 14 – 15 – 20 – 11 हो, तो DANGER के लिए कूट क्या होगा ?

- (a) 13 – 7 – 20 – 10 – 11 – 25 (b) 10 – 7 – 20 – 13 – 11 – 24
(c) 11 – 7 – 20 – 16 – 11 – 24 (d) 13 – 7 – 20 – 9 – 11 – 25

101. एक काल्पनिक प्रणाली है जिसमें अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 को क्रमशः a, b, c, d, e, f, g, h, i व j से विस्थापित किया जाता है, तो


$bee + fg - (ca \times \frac{h}{be})$ का मान है

- (a) bja (b) bic
(c) bhc (d) bib

102. प्रभात महेश से लम्बा है। गोपाल महेश से लम्बा है। भुवन की लम्बाई महेश से कम है। इनमें से कौन सबसे लम्बा है ?

- (a) भुवन (b) गोपाल
(c) प्रभात (d) गोपाल या प्रभात

103. निम्नलिखित प्रश्न में, प्रश्न चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए ?



- (a) 4268 (b) 2856
(c) 6464 (d) 5832

104. एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मी. चलता है। तब दाईं ओर मुड़कर 40 मी. चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर, 40 मी. चलता है। वह अपनी प्रारम्भिक स्थिति से कितनी दूर है ?

- (a) 30 मी. (b) 50 मी.
(c) 60 मी. (d) 70 मी.

105. अनिल, सुशील, राजू व हरीश चार दोस्त हैं। उनमें से एक क्रिकेटर है तथा रसायन व जीवविज्ञान का अध्ययन करता है। अनिल व सुशील फुटबॉल खेलते हैं। अनिल वाणिज्य पढ़ता है। दोनों फुटबॉल खिलाड़ी गणित पढ़ते हैं। हरीश एक बॉक्सर है। एक फुटबॉल खिलाड़ी भौतिक विज्ञान भी पढ़ता है। बॉक्सर गणित व एकाउन्टेन्सी पढ़ता है। प्रत्येक व्यक्ति दो विषय पढ़ता है तथा एक खेल खेलता है।

उस व्यक्ति का नाम बताइए जो बॉक्सर नहीं है किन्तु रसायन व जीवविज्ञान दोनों पढ़ता है।

- (a) अनिल (b) सुशील
(c) राजू (d) हरीश

106. A, B व C का औसत भार 45 किग्रा. है जबकि A व B का औसत भार 40 किग्रा. है तथा B व C का औसत भार 43 किग्रा. है। B का भार ज्ञात कीजिए।

- (a) 31 किग्रा. (b) 26 किग्रा.
(c) 20 किग्रा. (d) 17 किग्रा.

107. In a certain code language, 'come and go' is coded as 758, 'go home soon' is coded as 839, 'good and bad' is coded as 521. Which of the following is coded for 'come' ?
- (a) 5 (b) 7
(c) 8 (d) 2

108. Which of the given options should be placed at question mark (?) logically ?

BD ₃	CE ₅	DF ₁₅
EG ₂	FH ₄	GI ₁₂
HJ ₄	IK ₆	?

- (a) IJ₉ (b) JL₁₈
(c) JK₁₈ (d) JL₉
109. P is mother of K. K is sister of D. D is father of T. How P is related to T ?
- (a) Mother (b) Grandmother
(c) Aunt (d) Sister-in-law
110. If the selling price of a commodity is doubled, its profit triples. Its profit percentage now is
- (a) 100 (b) 105
(c) 115 (d) 120
111. A man completes a journey in 10 hours. He travels first half of journey at the rate of 21 km/hr. and second half at the rate of 24 km./hr. The total journey he completed in 10 hrs. is
- (a) 234 km (b) 230 km
(c) 224 km (d) 220 km

112. **Statements :** (i) All flowers are toys.
(ii) Some toys are trees.
(iii) Some angels are trees.
- Conclusions :** (I) Some angels are toys.
(II) Some trees are flowers.
(III) Some flowers are angels.
- (a) Only conclusion (I) follows. (b) Only conclusion (II) follows.
(c) All conclusions follow. (d) None of the conclusions follows.

113. Which one of the four interchanges in signs and numbers would make the given equation correct ?
- $$3 + 5 - 2 = 4$$
- (a) + and -, 2 and 3 (b) + and -, 2 and 5
(c) + and -, 3 and 5 (d) None of these

107. एक निश्चित कूट भाषा में 'come and go' का कूट 758 है, 'go home soon' का कूट 839 है, 'good and bad' का कूट 521 है। निम्नलिखित में से कौन सा कूट 'come' के लिए प्रयोग किया गया है ?
- (a) 5 (b) 7
(c) 8 (d) 2

108. दिए हुए विकल्पों में से कौन सा, तार्किक रूप से, प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर आना चाहिए ?

BD ₃	CE ₅	DF ₁₅
EG ₂	FH ₄	GI ₁₂
HJ ₄	IK ₆	?

- (a) IJ₉ (b) JL₁₈
(c) JK₁₈ (d) JL₉
109. K की माता P है। K, D की बहन है, D, T का पिता है। P, T से किस प्रकार सम्बन्धित है ?
- (a) माता (b) दादी
(c) चाची (d) भाभी
110. यदि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाता है, तो इस पर लाभ तिगुना हो जाता है। अब इसका लाभ प्रतिशत है
- (a) 100 (b) 105
(c) 115 (d) 120
111. एक आदमी किसी यात्रा को 10 घण्टे में पूरी करता है। वह पहली आधी यात्रा 21 किमी/घंटा तथा दूसरी आधी यात्रा 24 किमी/घंटा की दर से पूरी करता है। उसने 10 घंटे में कुल यात्रा तय की है :
- (a) 234 किमी. (b) 230 किमी.
(c) 224 किमी. (d) 220 किमी.

112. कथन :(i) सारे फूल खिलौने हैं।

(ii) कुछ खिलौने पेड़ हैं।

(iii) कुछ देवदूत पेड़ हैं।

निष्कर्ष : (I) कुछ देवदूत खिलौने हैं।

(II) कुछ पेड़ फूल हैं।

(III) कुछ फूल देवदूत हैं।


- (a) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है। (b) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
(c) सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। (d) कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।

113. दिए गये चार विकल्पों में संकेतों एवं अंकों की अदल-बदल प्रक्रिया में कौन सा विकल्प इस समीकरण को सही साबित करेगा ?

$$3 + 5 - 2 = 4$$

- (a) + और -, 2 और 3 (b) + और -, 2 और 5
(c) + और -, 3 और 5 (d) इनमें से कोई नहीं


114. In the following Venn diagram, one circle represents teachers, the other represents painters and the third one represents historians :



Which of the following regions represents the persons who are teachers and painters but not historians ?


- (a) F (b) G
(c) D (d) B
115. Two equations I and II are given as follows :
- I: $\sqrt{25x^2 - 125} = 0$
 II: $\sqrt{361y + 95} = 0$
- Which of the following is (are) the correct answer (answers) ?
- (a) $x > y$ (b) $x > y$ or $x < y$ (c) $x \geq y$ (d) $x \leq y$

116. Find the number of triangles in the given figure :



- (a) 18 (b) 22
(c) 26 (d) None of the above
117. Five children are sitting in a row. S (but not T) is sitting next to P. K is sitting next to R, who is on the extreme left. T is not sitting next to K. Who is (are) sitting adjacent to S ?
- (a) R and P (b) P and T
(c) K and P (d) only P
118. If ASHA = 79, then VINAYBHUSHAN = ?
- (a) 211 (b) 144
(c) 180 (d) None of these
119. If it was Saturday on 17th December, 2002, what was the day on 22nd December, 2004 ?
- (a) Sunday (b) Monday
(c) Saturday (d) None of these
120. How many '4' are there in the following series, which are preceded by 8 and followed by 0 ?
 8 4 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 8 4 0 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 4 0 8 0 4
- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

114. निम्नांकित वैन आकृति में, एक वृत्त शिक्षकों को दर्शाता है, दूसरा चित्रकारों (पेन्टर) को तथा तीसरा इतिहासकारों को दर्शाता है ।



निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो शिक्षक व चित्रकार हैं किन्तु इतिहासकार नहीं हैं ?

- (a) F (b) G
(c) D (d) B

115. दो समीकरण I व II नीचे लिखी हुई हैं :


$$I: \sqrt{25x^2} - 125 = 0$$

$$II: \sqrt{361y} + 95 = 0$$

निम्नलिखित में से कौन सा (से) सही उत्तर है (हैं) ?

- (a) $x > y$ (b) $x > y$ या $x < y$
(c) $x \geq y$ (d) $x \leq y$

116. दिए गये चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए :



- (a) 18 (b) 22
(c) 26 (d) इनमें से कोई नहीं

117. एक पंक्ति में पाँच बच्चे बैठे हैं । S (किन्तु T नहीं) P के बगल में बैठा है । K, R के बगल में बैठा है जबकि R बिलकुल बाईं ओर बैठा है । T, K के बगल में नहीं बैठा है । तो S के बगल में कौन बैठा है (बैठे हैं) ?

- (a) R तथा P (b) P तथा T
(c) K तथा P (d) केवल P

118. यदि ASHA = 79, तब VINAYBHUSHAN = ?

- (a) 211 (b) 144
(c) 180 (d) इनमें से कोई नहीं

119. यदि 17 दिसम्बर, 2002 को शनिवार था, तो 22 दिसम्बर, 2004 को कौन सा दिन था ?

- (a) रविवार (b) सोमवार
(c) शनिवार (d) इनमें से कोई नहीं

120. निम्नलिखित श्रृंखला में कितने '4' इस प्रकार हैं जिनके एकदम पहले 8 तथा एकदम बाद में 0 आया है ?

8 4 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 8 4 0 8 0 4 8 0 4 8 4 0 8 0 4

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

भाग – IV (A)
सामान्य हिन्दी

121. 'करणीय' शब्द में प्रत्यय है
(a) णीय (b) नीय
(c) ईय (d) उक्त में कोई नहीं
122. 'अभिज्ञ' का विलोम शब्द है
(a) भिज्ञ (b) अनभिज्ञ
(c) अनाभिज्ञ (d) विज्ञ
123. 'अभ्यागत' में कौन सा उपसर्ग है ?
(a) अभ्या (b) अभ
(c) अ (d) अभि
124. 'पत्नी' शब्द का पर्यायवाची नहीं है
(a) भार्या (b) दारा
(c) रमणी (d) अर्धांगिनी
125. 'शलाका' का तद्भव रूप है
(a) साला (b) साली
(c) सलाई (d) शाला
126. 'विद्याभ्यास' शब्द में कौन सा समास है ?
(a) सम्बन्ध तत्पुरुष (b) सम्प्रदान तत्पुरुष
(c) करण तत्पुरुष (d) कर्म तत्पुरुष
127. 'मोती' का तत्सम रूप है
(a) मुक्तक (b) मोतिक
(c) मुक्तिका (d) मौक्तिक
128. 'रसोईघर' का समास-विग्रह है
(a) रसोई और घर (b) रसोईवाला घर
(c) रसोई के लिए घर (d) घर की रसोई
129. 'अधोगति' का सन्धि-विच्छेद है
(a) अधः + गति (b) अधो + गति
(c) अध + गति (d) अधि + गति
130. निम्नलिखित में से मुहावरा बताइये :
(a) जैसा देश वैसा भेस (b) न ऊधो का लेना, न माधो का देना
(c) गिरगिट की तरह रंग बदलना (d) नया नौ दिन पुराना सौ दिन

131. 'उग्र' शब्द का विलोम है
 (a) उद्दण्ड (b) सौम्य
 (c) विनत (d) कुटिल
132. निम्नलिखित में से 'खेड़ा' पर्यायवाची है :
 (a) स्थान विशेष का (b) नगर का
 (c) अट्टालिका का (d) गाँव का
133. 'जल और भूमि पर समान रूप से चलनेवाला' – इस वाक्यांश के लिए शब्द प्रयुक्त होता है
 (a) जलचर (b) नभचर
 (c) उभयचर (d) सर्वचर
134. निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है :
 (a) हमने अनेक बाधाओं को पार किया । (b) तुम्हारे घर पर मेहमान गये हैं ।
 (c) आप सपरिवार आमंत्रित हैं । (d) सुरेश बड़ा महादानी है ।
135. 'जिस पर विश्वास किया गया है' – इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है
 (a) विश्वस्त (b) विज्ञ
 (c) विश्वासप्रद (d) विश्वासित
136. निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है :
 (a) यह काम आप पर निर्भर है ।
 (b) हमारे शिक्षक प्रश्न उठाते हैं ।
 (c) पाँच पुलिस के कर्मचारी शहीद हुए ।
 (d) दो वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई ।
137. निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी में लिखे गए शब्द का चुनाव कीजिए :
 (a) आशीवाद (b) शिक्षणेत्तर
 (c) अन्विति (d) उपरोक्त
138. निम्नलिखित में से कौन से शब्द-युग्म की वर्तनी शुद्ध है ?
 (a) पति-पत्नी (b) पति-पत्नि
 (c) पती-पत्नी (d) पती-पतिनी
139. 'अंधों में काना राजा' लोकोक्ति का अर्थ है :
 (a) अंधा हो जाना (b) राजा का कान खराब होना
 (c) अंधे को राजा बनाना (d) मूर्खों के बीच में थोड़ा समझदार व्यक्ति
140. समुद्रोर्मि का संधि-विच्छेद है
 (a) समुद्र + ऊर्मि (b) समु + द्रौर्मि
 (c) सम + उर्मि (d) सम् + दर्मि

Part – IV (B)
GENERAL ENGLISH

141. Fill in the blank space by picking out the correct preposition from the choices given below :

The man died _____ heart attack.

- | | |
|----------|--------|
| (a) with | (b) in |
| (c) of | (d) by |

142. Choose a one-word substitute for the following expression :

A person pretending to be somebody he is not.

- | | |
|--------------|--------------|
| (a) Rogue | (b) Liar |
| (c) Magician | (d) Imposter |

143. Insert the appropriate article :

_____ iron is a metal.

- | | |
|---------|--------------------|
| (a) A | (b) An |
| (c) The | (d) X (no article) |

144. Choose the correct sentence :

- (a) If you had seen him, you would have liked him.
- (b) If you had seen him, you would like him.
- (c) If you had seen him, you will like him.
- (d) If you had seen him, you had liked him.

145. Choose the correct meaning of the idiom :

To grease the palm.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| (a) to put grease on the palm | (b) to make the palm greasy |
| (c) greasy palm tree | (d) to bribe |

146. What is the noun of the word 'deep' ?

- | | |
|------------|------------|
| (a) Deeply | (b) Depth |
| (c) Deepen | (d) Deeper |

Note : Read the following passage carefully and answer the questions below (Q. Nos. 147 to 150)

Character is the base of every man's life. It is the backbone of our existence. A man who has no character can get no mental or spiritual attainment. M.K. Gandhi attained higher things and Gautam Buddha found a rare gift in his life on account of character. Character is like a touchstone which converts even a base metal into gold. In India corruption can be easily observed in various fields of life. In the field of public administration there is an utter lack of character. Bribe is gladly accepted by those in power and dishonesty is supposed to be a part of practical wisdom. Duty is regarded as secondary and personal gains as primary.

147. What is the synonym of the word 'mental' ?

- | | |
|------------------|-------------------|
| (a) Intellectual | (b) Psychological |
| (c) Rational | (d) Physical |

148. What is the opposite of the word 'dishonesty' ?

- | | |
|-----------------|-------------|
| (a) Fairness | (b) Honesty |
| (c) Insincerity | (d) Sweet |

149. Choose the correct Hindi translation of the underlined English sentence :

- (a) भारत में भ्रष्टाचार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से देखा जा सकता है ।
(b) भ्रष्टाचार भारत में जिंदगी के बहुत से क्षेत्रों में देखा जा सकता है ।
(c) भ्रष्टाचार भारत में जिंदगी के विविध रूपों में देखा जा सकता है ।
(d) भारत में भ्रष्टाचार जीवन के तरह-तरह के क्षेत्रों में देखा जा सकता है ।

150. From the following, choose the most suitable title for the above passage :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| (a) Importance of Character | (b) Character and Corruption |
| (c) The Crisis of Character in India | (d) Corruption in Public Life |

Space For Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

Space For Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह